

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ४३०] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर १३, १९६८/कार्तिक २२, १८९०
No. 430] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 13, 1968/KARTIKA 22, 1890

इस भाग में विन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November 1968

S.O. 4097.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), and after previous publication as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 3918, dated the 16th December, 1965, namely:—

In Annexure I to the said notification, in Table I,—

- (a) quality No. "VC7" in column 1 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (b) against quality No. "VC8", for the figures "15" in column 16. the figures "14.5" shall be substituted.

[No. 60(9)Exp.Insp./67.]

DEVINDAR NATH, Jt. Secy.

